NPL/BSE/2022-23/16

May 27, 2022

To The Listing Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Tower Dalal Street Mumbai - 400 001

> Scrip Code: 511714 Scrip ID: NIMBSPROJ

<u>Sub:-</u> Regulation 47(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Submission of Copies of Newspaper Clipping of the Audited Financial Results for the quarter and the year ended March 31, 2022

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper clippings of the Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter and year ended March 31, 2022, as published in the following newspapers on May 27, 2022:

- i. Financial Express dated, May 27, 2022 (English Daily)
- ii. Jansatta dated, May 27, 2022 (Hindi Daily)

The above Audited Financial Results is also uploaded on the Company's website i.e. www.nimbusprojectsltd.com.

Kindly take the same on records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Nimbus Projects Charles

Surbhi Khanna

Company Secretary & Compliance Officer

Mem: A40407

Encl: as above

Regd. Office: 1001-1006,10th Floor, Narain Manzil, 23 Barakhamba Road, New Delhi-110001 Phone: 011-42878900

Fax: 011-41500023, E-mail: nimbusindialtd@gmail.com, Web.: www.nimbusprojectsltd.com

POSSESSION NOTICE केनरा बैक 🕰 Canara Bank

whereas: The unuersigned being the authorised Officer of the Cahara Bank under Security after Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act \$4 of 2002) (Interinalities referred to as "the Act") and in 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice call mentioned in the notice, with further interest and incidental expenses and cost: within 60 described mentioned in the notice, with further interest and incidental expenses and cost: within 60 described mentioned in the notice, with further interest and incidental expenses and cost: within 60 described mentioned in the notice, with further interest and incidental expenses.

possession of the property described herein below in exer 8 & 9 of the said rule as per the details given below. The the property and any dealings with the property will be su	borrower in pa bject to the char	rticular and the public ge of Canara Bank for	in general are hereby cautioned not to deal was a mount along with interest mentioned below.
The borrower's attention is invited to the provisions of Se Name of Branch Name & Address of Borrower/Guarantor/Mortgagor		Outstanding Amt. as per Demand Notice	
KICHHAII: Shri Dinesh Chandra (Borrower), S/o Anokhe Lal, Ward no. 13, Railway Colony, Kichha, Dist. U.S. Nagar, Pin-263148; Smt. Madhuri Dev! (Mortgagor & Co-Borrower) W/o Shri Dinesh Chandra, Ward no. 13, Railway Colony, Kichha, Dist. U.S.Nagar, Pin-263148 Syl Shri Dinesh Chandra, Ward no. 13, Railway Shri Harish Kumar Saxena (Guanartor) Shri Harish Kumar Saxena (Guanartor) S/o Shri Dinesh (20, 2) Pant Colony, Kichha, Dist. U.S. Nagar, Pin-263148	16/03/2022 Date of Possession 24/05/2022	Rs.6,69,435.47/- (Rupees Six Lakh Sixty Nine Thousands Four Hundred Thirty Five & Forty Seven Paisa Only), plus further interest & other expenses.	Land & Building situated at Chak No. Khaza No. 340/33 Min situated Aiba Khaza No. 340/33 Min situated Lib bandia, Pargana- Rudrapur, Tehsil Kich Dist US Nagar having an extent up to 194 square meter. Boundaries: East: Plot of Munni Devi West: Plot of wendor North: Rasta South: Land of Others
ALMORA : . M/s Krishna Tent & Caters [Proprietorship Firm] Prop. Ramesh Singh Nagarkoti Krishna Sweets, Dharanaula, Almora 263601 2. Shri Ramesh Singh Nagarkoti (Borrower/Mortgagor) 5/6 Kishna Singh Nagarkoti, Krishna Sweets, Dharanaula, Almora-263601 3. Shri Gamesh Gururani (Guarantor) 5/6 Shri Mohan Chandra Gururani, Badreshwa ward, Champanaul, PO Almora-263601	05/03/2022 Date of Possession 24/05/2022	Rs. 22,42,070/- (Rupees Twenty Two lakh Forty Two Thousands Seventy Only), plus further interest & other expenses.	Open Land in the name of Shir Ramesh's Nagarioti (5) 64h (Shah Singh Nagari situated at Mauja Safara Kâl, Patti Khaspa Patwari area Khatyar, Pargana Barahari Rashayar, Pargana Barahari Rasha No. 80001, Barahari No. 88, Pinasari No. 88, Pinasari No. 80, Pinasari No. 88, Pinasari No. 88, Pinasari No. 88, Pinasari No. 80, Pinasari Nagari N
DUBGAPURI: 1. M/s Soumya Sumati Travelars Prop. Lipi Roy, Kalinagar, Vijaynagar Dineshpur, U S Nagar, Pin 263160 2. Smt. Lipi Roy (Proprietor/Mortgagor) W/o Shri Nishikant Roy Kalinagar, Vijaynagar U S Nagar Pin-263160	08/03/2022 Date of Possession 21/05/2022	Rs. 5,73,891.16/- (Rupees Five Lakh Seventy Three Thousands Eight Hundred Ninety One & Sixteen Paisa Only), plus further interest & other expenses.	Open fand in the name of Smt. Lipi Roys Shri Nishikan Roy situated at Vijavna, Tehsil Rudrapur, Dist U S Nagar beat Khata No. 00243 (Jold Khata No. 27), kf No. 508 Min measuring 66.91 square met Boundaries: North: Rasta East: Land of vendor West: Land of Vendor South: Land of Vendor
Date : 27-05-2022	Place	: Haldwani	Authorised Office

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT
(ation 6 of the Insolvency and Bankruptcy

U70200DL2010PTC208933

220, 2nd Floor, Vardhman Sunrise Plaza Plot No.: L.S.C., Vasundhra Enclave, Delhi-110096 IN

2236, Sector 46, Gurugram Haryana - 122001

Fmail: insolvencyprofessional@rediffmail.com This email is not to be used for sending cla C/o MAA & Company F-327/1 First F

AJANTA SOYA LIMITED

CIN L15494RJ1992PLC016617 Regd. Office & Works : SP-916, Phi Industrial Area, Bhiwadi-301 019, Raj

industrial Area, Britwadi 301 019, Rajasihar Tel. 911 6176727, 911-12880;

Corp. Office: 12° Floor, Biglo's Tower, A-8 Netial Subhash Flace, Wazirpur District Centre, Delhi: 1100 315 100, Tel. 011-42515151, Fax: 011-4251500, Email: cs@jaintasoya.com
Website: www.ajantasoya.com
MOTICE OF RECORD DATE
MOTICE IS PARCH, Diller III-ba Tel. Based, et al. 101

indianexpress.com

केन्स्रा बैंक Canara Bank 📣 |

Notice Under Section 13(2) Of The Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Of Security Interest Act 2002.

Whereas at the request of you (below mentioned borrows). Cannet Bank has granted Credit Facility against schedule property creating security interest in favour of the Bank. The particulars of property mortgaged by you by way of deposit of title deeds creating security interest in favour of the Bank are mentioned hereinder. Asy unlawe failed to discharge the debut due to the Bank, the below mentioned loan account has been classified as Mon-performing Asset as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India. As the Demand Notice sent to you by Registered Post calling upon you to discharge the debt due to Bank were returned, unserved, we are issuing this notice through publications.

Borrowers/Guarantors	Description of Property	Notice	Amount of Demand Notice
	Branch- Awas Vikas Colony, Agra		
S/o Sri Panni Ram, Sri Sanjay S/o Sri Jagdish, Add. of both- H. No. 176,	EMT of Property, LIG Ptot No 199 in Sector E, Sub Sector E-01 situated at Shastripuram, Lohamandi Ward, Teh. & Distt Agra, Arae- 44.36 Sq. Mtr., Property in the name of Sri Jagdish S/o Sri Panni Ram and Sri Sanjay S/o Sri Jagdish, Bounded as: East- Road, West- ESS Existing, North- Ptot No 198, South- Ptot No 200.	21.05.2022	24,04,070.48 as on Dt. 20.05.2022 + interest & expenses
and incidental expenses, c within 60 days from the dal under Sub-section (4) of s	persons fails to repay the above mentioned amount due by osts as stated above in terms of this notice under Section to of Publication of this notice, the bank will exercise all ors ection 13 of SARFAESI Act and other applicable provisio of the Bank's right to initiate such other actions or legal p provisions of law.	13 (2) of ny of the ns of the	ARFAESI Act, rights detailed said Act. This
Dated : 27 05 2022 Place :	Aara	A 4 h	lead Officer

GOODLUCK INDIA LIMITED

TA4890L1986PLC050910 | Regd. Off: 509, Arunachal Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110 001 | E-mail: goodluck@goodluckindia.com | Website: www.goodluckindia.com | Extract of Standalone and Consolidated Audited Financial results for the quarter/year ended on 31" March, 2022 | (Rs. in La

SI.		Standalone				Consolidated				
No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended		
,,,,,,,,,,		31/03/2022	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2022	31/03/202	
1	Total income from operations	70,079.22	48,082.90	2,61,321.26	1,57,211.52	70,079.22	48,082.90	2,61,321.26	1,57,211.	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,209.42	1,028.58	10,058.25	4,019.61	3,208.91	1,028.08	1,0057.37	4,018.8	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,209.42	1,028.58	10,058.25	4,019.61	3,208.91	1,028.08	10,057.37	4,018.8	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,429.73	818.05	7,501.96	3,005.45	2,429.22	817.55	7,501.08	3,004.	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,429.73	818.05	7,501.96	3,005.45	2,429.22		7,501.08	3,004.	
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 2 each)	520.13	490.13	520.13	490.13	520.13	490.13	520.13	490.	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	NA	NA	46,072.67	37,854.55	NA	NA	46,071.79	37,854.5	
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinuing operations)									
	Basic :	9.40	3.50	29.48	13.01	9.40		29.48		
	Diluted:	9.40	3.50	29.48	13.01	9.40	3.50	29.48	13.	

For Goodluck India Limite

BAZEL INTERNATIONAL LTD.

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2022 (Rs. In Lakhs 31.03.2021 (Audited) 26.49 84.44

31.03.2022 (Audited) 115.480 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exception 9.38 9.36 (75.08) (31.89) 43.32 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptiona 4.51 6.93 (64.99) (33.82) 29.63 Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each 145 50 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and dis

- Notes:

 1. The Company is having only one business activity so the segment reporting under Ind AS-108 is not required.

 2. The Above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their The Statutory Auditor of the Company have provided Audit Report for the same.

 5. Figures of previous periods were expressional characteristic reviewer necessary by confirm to the periods of current periods.

 8. Illination Accounting Standards are applicable on the Company w.e.st 11" April 2019.

(expleo) **Expleo Solutions Limited**

Registered Office: 6A, Sish Hoor, Prince Infocity II, No. 283/3 & 283/4, Rajiv Gandhi Salai (OMR), Kandanchavadi, Chennai - 600 096, India • Phone : + 91 44 4392 3200
• Website: https://eplesolutions.om • CM: 164207M198PR.006601

NOTICE TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND (IEPF)

Notice is hereby given to the Shareholders of the Company pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time, that all the Shares in respect of which dividend entitlements have remained unclaimed / unpaid during last seven consecutive years, are required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") established by the Central Government.

The details of shareholders who have not claimed their dividends during last seven consecutive years and whose shares are therefore liable for transfer to the DEMAT Account of the IEPF Authority, is displayed on the website of the Company https://expleosolutions.com. The Company has sent individual communication/letter dated May 26, 2022 through registered post to the latest available addresses of those shareholders advising them to claim the dividends expeditiously by writing to our Registrar and Share Transfer Agent, Cameo Corporate Services Limited, Unit: Expleo Solutions Limited, "Subramanian Building', No.1, Club House Road, Chennal 600 002, Telephone: 044 - 2846 0390 / 044 - 4002 0700, Fax No: 044 - 2846 0129, Email: investor@cameoindia.com, Website: http://www.cameoindia.com.

In case no valid claim has been made on or before **August 28, 2022** for the Final Dividend for financial year 2014-15 or in case no valid claim has been made for the dividend declared during last seven financial years (at least for any no year), the shares in respect of Final Dividend for the financial year 2014-15 will be transferred to the DEMAT Account of the IEPF Authority without any further notice.

It is to be noted that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF as per the above Rules. In case the concerned shareholders wish to claim the shares after transfer to IEPF, a separate application has to be made to the IEPF Authority in Form IEPF-5, as prescribed under the above Rules and the same is available at IEPF Website, i.e. www.lepf.gov.in.

For and on behalf of Board of Directors Expleo Solutions Limited

Date : May 26, 2022 Company Secretary & Compliance Office

I arrive at a conclusion not an assumption. Inform your opinion with detailed analysis. **♦** The Indian **EXPRESS**

NIMBUS

NIMBUS PROJECTS LIMITED

Regd. Office: 1001-1006, 10th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 : 011-42878900, Email : <u>nimbusindialt@gmail.com</u>, Website : www.nimbusprojectsltd.com CIN : L74899DL1993PLC055470

		STANDA	LONE			CONSOL	IDATED	
PARTICULARS	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)
Total Income from operations	60.96	25.49	386.21	461.58	60.96	25.50	386.21	461.59
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and after Exceptional Items)	(-)687.21	(-) 424.94	905.81	(-) 2153.34	(-)93.71	(-) 430.92	1460.60	(-) 2205.07
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(-) 678.81	(-) 428.86	868.12	(-) 2168.12	(-) 85.32	(-) 434.84	1422.91	(-) 2219.85
Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit /(Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(-)678.43	(-)428.29	868.76	(-) 2167.41	(-)83.87	(-)434.91	1424.70	(-) 2219.14
Equity Share Capital	1083.80	743.80	1083.80	743.80	1083.80	743.80	1083.80	743.80
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	(-) 4862.26 (As on 31.03.2022)	(-) 5731.01 (As on 31.03.2021)	-	_	(-)4862.20 (As on 31.03.2022)	(-) 6286.89 (As on 31.03.2021)
Earnings Per Share (Face Value Rs. 10/- each) Basic: Diluted:	(-) 6.62 (-) 6.62	(-)5.77 (-)5.77	8.46 8.46	(-) 29.15 (-) 29.15	(1.15) (1.15)	(-) 5.85 (-) 5.85	13.87 13.87	(-) 29.84 (-) 29.84

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (List)
and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Yearly Financial Results are available on the Stock Exchan
On behalf of the Board
On behalf of the Board. On behalf of the Board

financialexp.ep.p.in









🖄 newgen

यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड

वीडियो कान्फ्रंस अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों के जरिए आयोजित की जाने वाली 30वीं वार्षिक आम बैठक, रिकॉर्ड तिथि और अंतिम लाभांश के संबंध में सूचना

-) सदस्य कृपया गोट कर लें कि न्यूजेन सांफ्टवेयर टेक्नोलॉजिज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 30वीं वार्षिक आम बैठक, कार्पोस्ट मामले मंत्रालय (एमसीए) हारा जारी सामान्य परिपन्न सं 142020, 1770200, 20200, 022001, 2120021 और 0220022 रावा भारतीय प्रतिसृति एवं विनिम्न वं कीं (सेवी) हारा जारी परिपन्नों के साथ पवित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम के नीटिस में निर्धारित किए जाने वाले बिजनेस के संचालन के लिए, वीडियों कार्फस (विसी) अन्य अधिनियम, 2013 जून, 2022 को शात 11.00 बजे (सीडी) अध्योजित की जाएगी।
- 2) उपरोक्त परिपत्नों के अनुसरण में, एजीएम का नोटिस तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां उन सदस्यों को कंवल इलेक्ट्रोनिक पद्धति से भेज दी जाएंगी जिनके ई-मेल पर्त कंपनी, टिशाफिटरी पार्टिसिएंद्र को पास पंजीकृत हैं। सदस्य ने कर लें कि नोटिस और वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां क्यें नी की वेबसाइट https://newgensoft.com और स्टॉक एक्सबेंजों की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां कंपनी की वेबसाइट https://newgensoft.com और स्टॉक एक्सबेंजों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।
- 3) ई—मेल पतों के पंजीकरण/अद्यतन करने का तरीकाः
-) ई—मेल पतों के पंजीकरण/ अदातन करने का तरीकाः
 > सदस्य जिन्होंने अपना ई—मेल पता और मोबाइल नंबर और पता सहित, पंजीकृत / पंजीकृत नहीं
 कराया है, वे कृपाय इलेन्द्रिनिक राक्प में अध्यर धारण करने के मानले में डिमाजिटरी पार्टिसियेट
 तथा जिन्होंने मौतिक राक्ष में होशर धारण किए हैं वे कंपनी के रिकरहार और शेशर ट्रांसफर एजेट
 ("आरटीए") अर्थात केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड
 कें तीर पर प्रचलित) से संपर्क कर लें और अपने विवरण वैधीकृत / अदातन करा लें।
 > सदस्य जिन्होंने अपने ई—मेल पत्ते पंजीकृत नहीं कराए हैं और परिणामरक्कर वार्षिक रिपोर्ट तथा
 एजीएम का नोटिस प्राप्त नहीं किया जा सका है, वे इसे भेजने के लिए विंक
 https://iks.kfintech.com/clientservices/mobileemaileng.asspx पर कंपनी के आरटीए के पास
 अस्थाई रूप से अपना ई—मेल पता और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा दें। सदस्यों से आगे यह अनुरोध
 किया जाता है कि वे यूजर आईडी और पासवर्क के साथ नोटिस की साफ्ट प्रति और ई—विटिप
 अनुस्त्रों को भेजने के लिए ई—मेल पता और मोबाइल नंबर हासिल करने के लिए यथा निर्देशित
 प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रश्न के लिए सदस्य einward.ris@kfinlech.com पर लिख
 सकते हैं। सकते हैं।
- सकत ह। वैकिस्पिक तौर पर, सदस्य वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम का नोटिस और ई--वोटिंग अनुदेश मेजने के लिए ई-मेल पता, मोबाइल नंबर प्रदान करते हुए हस्ताश्चरित अनुरोध पत्र की राईन की गई प्रति स्वयं सत्यापित पैन प्रति और इलेक्ट्रॉनिक फोलियों के मामले में ग्राहक मास्टर प्रति तथा भौतिक फोलियों के मानले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ einward.ris@klinlech.com Investors@newgensoft.com पर ई-मेल भेज सकते हैं।
- investors@newgensoft.com पर ई-मेल मेज सकते हैं।

 4) ई-बोटिंग के जिए पतदान करने का तरीकाः कंपनी एजीएम के नोटिस में यथा निर्धारित सभी संकल्पों पर अपना मतदान करने के लिए सभी सदयों को सिमोट ई-बोटिंग चुकिशा स्थितः ई-बोटिंग उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के तौरान ई-बोटिंग प्रणाली के जिए मतदान करने की सुविधा (ई-बोटिंग) उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-बोटिंग /ई-बोटिंग के लिए समें एक्ट्रिक प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में उपलब्ध कराई गई है।

 5) अतिम लागांशः सदस्य नोट कर लें कि निरंशक मंडल ने रूप 4.50/— प्रति इक्टियटी शैयर (अर्थात, पदत्त इक्ट्रिकटी केटिल पर 45%) के अतिम लागांश के जीता स्थानांश के विभागित के हिए सहस्यों के जीता स्थानांश के लिए बहस्यतिवार, 16 जून 2022 रिकार्ड तिथि के तीर पर निर्धारित की है। बेंग के अत्मार्थ एन पहिंग के कराय इतेल्डर्सनिक पर का निर्धार के लिए सहस्यों के पात्रता के निर्धारण नहीं होने के लगांश कराय इतेल्डर्सनिक पहिंग के अत्मार्थ रहने पर कंपनी ऐसे सदस्यों का जानांश का मुगतान करने में कंपनी के अतमार्थ रहने पर कंपनी ऐसे सदस्यों का वार्य के पत्रता पर लोगों के प्रतास उत्तर के प्रतास के विशास स्थान के प्रतास करने का स्थास के प्रतास करने का स्थीकर अतिथ स्थार के स्थास स्थान करने का स्थीकर अतिथ स्थार के स्थास स्थान करने का स्थीकर अतिथ स्थार स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थित स्थान स
- उनके पजाकृत पता पर लोगांश वास्त्रप्त 'चको का प्राप' करनी।

 6) अंतिम लागांश इतेन्द्ररां निकी प्राप्त करने का अधिदेश पंजीकृत करने का तरीका: अंतिम लागांश प्राप्त करने में देशे से बचने के लिए. डीमेंट पद्धित में शेयर घारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिप्पणिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना केंबाईसी अध्यतन कर दो भौतिक स्वरूप में शेयर घारण करने वाले और लागांश के मुगतान के लिए बैंक विवरण रिजस्टर करने अथवा अपने संबंधित फीलियों के तहत पहले से रिजस्टर केंब विवरण करने अथवा अपने संबंधित कोलियों के तहत पहले से रिजस्टर बैंक विवरण बदलने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए को einward.ns@kfinlech.com पर लिखें।
- 7) यह मोदिस कर्पारेट मामले मंत्रारलय और संबी के लागू परिपन्नों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की सूचना और लाभ के लिए जारी किया जा रहा है।

न्यजेन साफटवेयर टेक्नोलॉजिज लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से हस्ता / – अमन मौर्या कंपनी सचिव

दिनांकः 26 मई, 2022 स्थानः नई दिल्ली

सुब्रोस लिमिटेड

जा कार्यालय: एलजीएफ, वर्ज ट्रेड संस्ट, बाराजन्या लेग, नई विस्त्र सीजाईएफ: L'489901, 1985PLC020134 टेसी नं: 01.2241444446 कुमत्त नं: 01.122414945 ई-मेत: cakesh anora 8 subros.com: वेबलाईट: www.subros.co पूचना निवंशक शिक्षा एवं संस्था नियी (आईडीएफ) उचन्त खाते में कम्पनी के इकिटी शेषरों का अंतरण

स्वारा चृष्टित किया जाता है कि निषंक शिक्षा एवं स्वार निष्मा प्रिकार (लेखाकरण, लेखारपेश), त्वारा चृष्टित किया जाता है कि निषंक शिक्षा एवं स्वार पर व्यवसंगीतित ("गिम्म") के साथ पठित तथा एवं साथों) शियम, 2016, त्याय-सम्प्राय पर व्यवसंगीतित ("गिम्म") के साथ पठित तथा तथा आर्थिक कर्षों से बोरा पर्यक्ष के साथों के अनुसार में बीटिया गया है या द्वारा मनी तथा तथा या आर्थिक कर्षों से बोरा प्रायं क्षाति हों तथा (अर्जूरियण) प्रायक्षिक को अंतरित शिक्षा याच्या ग्राम्म के भिक्षा प्रायं हों कि शिक्षा पर्य संस्था निष्क (अर्जूरियण) प्रायक्षिक को अंतरित शिक्षा व्यवस्था ग्राम्म के भिक्षा तथा हो प्रायं के स्वार हों स्वार क्षेत्र हों का स्वार स्वार

रैया है में हिए आईड्योएफ प्राधिकण्य का अतारत क्रया थान ह। मानो ने ऐसे केटयात्मार्थ जाईडीएफ उच्छान जाते को अंदरण के लिए देव शेवरों का पूरा विस्तरण वनी बेबसाइट www.subcos.com पर अपनोड किया है और शेयरवारकों से अनुरोध है कि वे -िलिक (blas/www.subcos.com/messless) पर अवस्थाकृत लाभांच और आईडीएफ उचनन खाते अंतरण के लिए पात्र शेवरों के विस्तरों की जांच कर लें।

रधारक कृपया नोट करें कि आईईपीएक प्राधिकरण/उचन्त खाते को अंतरित किये गये गांश एवं शैयर, ऐसे शेयरों पर उपाजित लाम, यदि कोई हो, के लिए नियमों रित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएक प्राधिकरण के पास वापिस पाने का

ज सकता हैं। यहि कम्पी को संबंधित श्रेयरपारकों से 25 अगरत, 2022 तक या जससे यूर्व कोई प्रवास प्राप्त ना सिंदा के तो कम्पी कार्यत श्रियरों में सीर्थीत अवस्थावलाओं का प्राप्त करते यूर्व कोई पंचास प्राप्त नी निर्मिद्ध किया के अनुसार आंद्रेशियर कार्यत्व कोई प्रतिकार के अन्यति के स्वति का अवस्थाव क्ष्या के स्वति का स्वति आंद्रेशियर कार्यालय क्ष्यमनी के संबोधित कार्यालय क्ष्यमनी क्ष्यालय क

PML MERCANTILE LIMITED

PUBLIC NOTICE

Limited will be need on Mornay the cust usey to usue, custs, as et out in the Notice OrtEoM. Or (VCV) to transact the following business, as set out in the Notice OrEM. Or (VCV) to transact the following business, as set out in the Notice OrEM. The Members of the company including their ligal propresentative of a deceased to the Members of the company including their ligal propresentative of a deceased of the Members of the company including their ligal propresentative of the company including their ligal propresentative of the company including the company is providing facility of remote E-voting to the Company is brown to public the company is providing facility of remote E-voting to this Members in respect of the Company is providing facility of remote E-voting to this Members in respect of the Motor Company is providing facility of remote E-voting to this Members in respect of the Motor Company is providing facility of remote E-voting to this Members in respect of the Motor Company is providing facility of remote E-voting to this Members in respect of the Motor Company is providing facility of remote E-voting to the Motor Company is providing facility of remote E-voting to the Motor Company is providing facility of remote E-voting to the Motor Company is providing facility of remote E-voting to the Motor Company is providing facility of remote E-voting to the Motor Company is provided to those members whose

The Notice of Extra Ordinary General Meeting (ESM) along explanatory statement a other enclosures is being sett only through electronic mode to those members who Email addresses are registered with Company or NSDL (Depository). Members with have not registered their email addresses and in consequence it Notice of ESM and e-voting instructions could not be serviced, may get their em address and mobile number registered with the Company members may send an address and mobile number registered with the Company members may send an extra settle and the company of the request letter providing the email address, mobile number, se attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folia and copy of the certificate in case of physical folio for obtaining the Notice of ESM and the e-votil instructions.

तिथि : 26.05.2022

Zahaan Quresh

🚟 फ्लेक्स फूड्स लिमिटेड

CIN: L15133UR1990PLC023970 रजिस्टर्ड ऑफिस: लाल टप्पर इंडस्ट्रियल एरिया, पी.ओ. रेशम माजरी, हरिद्वा फोन : 91—135—2499234 फैसरो: +91—136—2499236 वैबसाईट : www.flexfoodslitd र रोड, देहरादून (उत्तराखंड) com **इंगेल**: secretarial@u 31.03.2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के दौरान अंकेक्षित वित्तीय परिणाम

क्रo संo	विवरण	31.03.2022 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	31.12.2021 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	31.03.2021 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)
1.	कुल आय	2877	2589	2927	11221	10545
2.	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि)	236	233	490	1240	1541
3.	अवधि के लिए कर पश्चात् शुद्ध लाभ / (हानि)	194	149	370	912	1199
4.	अवधि के लिए कर पश्चात कुल व्यापक आय (लाम / (हानि) सम्मलित) एवं अन्य व्यापक आय					
	(कर पश्चात)	200	149	390	918	1219
5.	समतुल्य अंश पूंजी (अंकित मूल्य₹10/- प्रत्येक)	1245	1245	1245	1245	1245
6.	अन्य समतुल्य, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त पूर्व वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार	10142	9348	9348	10142	9348
7.	आय प्रति शेयर₹10/- (रू० में) (अवार्षिकृत)					
	मूल	1.55	1.20	2.97	7.32	9.63
	तरल	1.55	1.20	2.97	7.32	9.63

ाहेटः - 1. उपरोक्त विवरण मारतीय प्रतिभूति एवं विनिधम बोर्ड (सूपीमन प्रतिश्व और अन्य प्रत्योक्त कांक्रोण) विनिधम 2015, के विनिधम 3, संबोधित परिश्व रूपाया स्थापित क्षेत्र अन्य प्रत्योक्त कांक्राण विनिधम 3, संबोधित परिश्व संख्या सीआईआर / सीएकडी / एपएसी / 62, 2016, विनोक 6 जुलाई 2016 के तरहा 31 मार्थ 2022 को सामार्थ 2022 को सामार्थ के यह अर्थ मार्थ 2022 को सामार्थ के यह अर्थ मार्थ 2022 को सामार्थ के यह अर्थ मार्थ 2022 को सामार्थ के प्रतिश्व के विनीय परिशामों का पूर्ण प्रास्थ स्टार्ट (www.bseinda.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.bseinda.com) तथा कंपनी की वेबसाइट

xxm) तथा कपनी की वेबसाइट कृते फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड हस्ता/-(अशोक चतुर्वेदी) चेयरमैन

चयरमन DIN - 00023452

स्थानः नोएडा दिनांकः 26.05.2022

विक्री सूचना

दिहान स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्थाप

रेडियस इन्फाटेल प्राइवेट लिगिटेड-परिसमापन—में की एक चालू कन्यानें के रूप में विक्री परिसमापक द्वारा, जो माननीय राष्ट्रीय विशे न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आदेश दिनांकित 31 मई, 2021 द्वारा नियुक्त किया गया है। यह बिक्री परिसमापक द्वारा ई—नीलामी प्लेटफार्म मिन्द्र-गिक्टीमार्थान अर्थानेकारिक कर के कारण के नियारिक की अराधी

क्र.सं.	आस्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	बोली वृद्धि राशि	धरोहर राशि
1.	कार्पोरेट देनदार की एक चालू कन्सर्न के रूप में बिक्री, कार्पोरेट देनदार की ग्राहकों की प्रतिभूति जमाओं के प्रति देयताओं सहित			
	विशिष्ट बहिष्करण :			
	क, रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (हाथ रोकड़, बैंक में रोकड़ तथा अन्य साविध जमाएं)।			
	ख. कोई आस्ति अथवा दिवाला एवं ऋणशोध अक्षमता संहिता, 2016 के थैप्टर-।।। के अनुसार सीदों से बचने के लिए कार्यवाही के माध्यम से वसल किया गया उसका मृख्य	₹ 15.00.00.000/-	₹ 5.00.000/-	₹ 1,00,00,000/-
	ग. कतिपय लम्बित मुकदमें, जिनका विवरण ढेटा रूम में उपलब्ध करवाया जाएगा।		5,00,000/-	1,00,00,000/-
	घ. अनाहूत पूंजी तथा/अथवा अदत्त पूंजी अंशदान (उनपर शेयर प्रीमियम सहित) के प्रति कार्पोरेट देनदार के किसी अंशदायी से वसल की गई कोई देयबकाया राशि			

- बसून का गृह का नृह व्यवस्थ्य वाली दे—निसानी के मिश्रम एवं सर्व मिनानुसार हैं

 1. ई—नीसानी 'जो है जहाँ हैं', 'जैसी है जो कुछ भी है' एवं ''बादिस्त पहित जाबार पर' जे जाबर पर अनुमोदित सेवा प्रवाता मैसर्स दू—बोश्योगरें र-टेननोर्स जीव सिरिमेंट (जीवशन टाइमर) के माज्यम से संवादिस्त को जाएगी।

 2. कोशिंदर देनदार, एसकी संवित्त जीव जिल्ला का निशीमा हुत सिर्मेक्ट 27 मई 2022 वे 24 पून 2022 तक, केनत इस्कुक व्यक्ति हारा अनुगेश किए जाने र को दूर्पपाल का नार्ट को जीवानि किट अपून 2022 के 34 पत्र 2022 तक, केनत इस्कुक व्यक्ति

 3. मानानीय एनसीएसट्टी से अनुमोदन के बाद अधिम बिजी की चुनिक की जाएगी।

 4. —ीतामा विवास के पूर्ण देवानिक विकास रे विजी की अधिक ता प्रवेदन अधिक प्रतिक्र अधिकामम में आयु कम्मा के का में बिजी
 अधिकारी का विवास, जीनवाहना ई—नीतामी दिका में प्रोमणा तथा यास्तमात्र माने, जीनवाहन ई—नीतामी विजी के साधारण नियम
 एवं जारी तो हुई देवसाइट https://doctauchion.accion.accionlege.net पर उपस्था हैं।
 सुमार्क : श्री प्रतीन बेकर मो. 194-97227 78628, 079-98158641

uoringarine पर चंत्रका है। अरविन्द मर्ग, धरमा अर्थित मर्ग, धरमा प्रिकार पर्वे सिमान्य में IBBI संजीकरण सं. IBBI मि. 003IP-\0002892017-2018/10188 पत्त 302 पान मेहन स्वाल, कर्तन सम्, नहिस्ती-10008 ईसेल : arvindgarg31@gmail.com, radius arvindgmail.com

Ş

श्री अमरनाथ फाडनेंस लिमिटेड

CIN No. L74899DL1985PLC20194 GIN No. L74899DL1985PLC20194 जीकृत कार्यात्तपः 4883-4884, दूसरी मंजिल, मेन रोड, कृषा उस्ताद डाग, बांदनी बौक, दिल्ली-फोन नंबर: 011-23953204, ईमेत: amarnath01finance@amail.com 31 मार्च. 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

	(रु. लाख में) ईपीएस को छोड़कर											
क्रम		समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वित्तीय वर्ष	समाप्त वित्तीय वर्ष							
सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021							
		(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)							
1	संचालन से कुल आय (शुद्ध)	121.40	117.45	453.20	495.86							
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, असाधारण और/या असामान्य मर्दों से पूर्व)	87.83	68.30	311.93	369.55							
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण और/या असामान्य मदी के बाद)	87.83	68.30	311.93	369.55							
4	सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) कर के बाद	58.31	41.31	230.81	269.49							
5	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असामान्य मदों के बाद)	58.31	41.31	230.81	269.49							
6	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (इस अवधि के लिए लाभ/हानि (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं।	58.31	41.31	230.81	269.49							
7	इक्किटी शेयर पूंजी	998.00	998.00	998.00	998.00							
8	रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि अकेक्षित बेलेंस शीट में दर्शाया गया है	-	-	5,764.75	5,533.94							
9	प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10 रुपये का अंकित मूल्य) (निरंतर और अनिरंतर संचालन के लिए)											
	- बेसिक (वार्षिक नहीं)*	0.58	0.41	2.31	2.70							
	- डाल्युटेड (वार्षिक नहीं)*	0.58	0.41	2.31	2.70							

रोक्त परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 2 2022 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है।

दिनांक: 26.05.2022 स्थान : दिल्ली

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022								
Particulars	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 31.03.2021 (Audited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)				
Total income from operations	1,677.10	891.09	5259.26	3151.37				
Net Profit / (Loss)for the period(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4.31	(6.77)	13.75	8.97				
Net Profit / (Loss)for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.31	(6.77)	13.75	8.97				
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.05	(6.77)	8.85	6.64				
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2.05	(6.77)	8.85	6.64				
Equity Share Capital	330.25	330.25	330.25	330.25				
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	(8.13)				
Earnings Per Share (of Re. 1/- each (for continuing and discontinued operations)								
Basic :	0.01	-0.02	0.03	0.02				
Diluted:	0.01	-0.02	0.03	0.02				

Place: New Delhi Date: 26th May, 2022

गुडलक इंडिया लि. (2) GCODLUCK DL1986PLC050910 । चंजी

.C050910| पंजी. कार्या.: 509, आरुणावल विन्हित, बाराखाव्या रोड कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 www.goodluckindia.com| ईं-मेल: goodluck@goodluckindia.com है, 2022 को समाज विवाही/वर्ष के लिये स्टैडएलॉन एवं समेकित

	31 माच, 2022			ष कालय रेणामों का		एवं समाकत		(3	s. लाखों में)	
क्रम	विवरण	J. Z.II.Q.I.I		एलॉन			समेकित			
सं.		समाप्त	तिमाही	समाप	त वर्ष	समाप्त	तिमाही	समाप	त वर्ष	
1		31/03/2022	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2021	
1.	परिचालनों से कुल आय	70,079.22	48,082.90	2,61,321.26	1,57,211.52	70,079.22	48,082.90	2,61,321.26	1,57,211.52	
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	3,209.42	1,028.58	10,058.25	4,019.61	3,208.91	1,028.08	1,0057.37	4,018.87	
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मर्दों के बाद)	3,209.42	1,028.58	10,058.25	4,019.61	3,208.91	1,028.08	10,057.37	4,018.87	
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधरण मर्दों के बाद)	2,429.73	818.05	7,501.96	3,005.45	2,429.22	817.55	7,501.08	3,004.71	
5.	अविधि हेतु कुल व्यापक आय (अविधि हेतु (कर के बाद) लाम/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	2,429.73	818.05	7,501.96	3,005.45	2,429.22	817.55	7,501.08	3,004.71	
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 2/- प्रति)	520.13	490.13	520.13	490.13	520.13	490.13	520.13	490.13	
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	एनए	एनए	46,072.67	37,854.55	एनए	एनए	46,071.79	37,854.54	
8.	आय प्रति शेयर (रु. 2/- प्रति का (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (चार्षिकीकृत नहीं)									
	मूल:	9.40	3.50	29.48	13.01	9.40	3.50	29.48	13.01	
	तरलः	9.40	3.50	29.48	13.01	9.40	3.50	29.48	13.01	

ारण - प्रणामी - प्रणाम के किस मिल के किस के

स्थानः गाजियाबाद तिथ्वः 26 मई, 202 आध्यक्ष DIN:00292437

बेजल इन्टरनेशनल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः ॥-वी/20, प्रथम मंजिल, लाजपत नगर, नई दिल्ली- 110024 ान्या/20, प्रथम माजल, लाजपत नगर, नइ । दर CIN: L65923DL1982PLC290287 20m, दूरमाष: 011-46081516; वेबसाइट: www

_	g-ner, bazelinternational e gritaticon					
	31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमार्ट	ो एवं वार्षिक के स्टै	न्डअलोन उद्धरित व	अंकेक्षित वित्तीय पर्	रेणाम	(रू० लाखों में)
丣.	विवरण		समाप्त तिमाही	समाप्त वार्षिक		
सं०.		31.03.2022 (अंकेक्षित)	31.12.2021 (अन—अंकेक्षित)	31.03.2021 (अंकेक्षित)	31.03.2021 (अंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)
1	संचालन से कुल आय	26.49	28.90	18.43	84.44	115.480
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	9.38	9.36	(75.08)	(31.89)	43.32
3	अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) कर से पहले (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मर्दों के बाद)	9.38	9.36	(75.08)	(31.89)	43.32
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	4.51	6.93	(64.99)	(33.82)	29.63
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाम/ (हानि) शामिल (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	21.52	6.93	(67.13)	(33.96)	46.64
6	प्रदत्त इक्वीटी शेयर पूँजी (सममूल्य रू० 10/- के प्रत्येक)	145.50	145.50	145.50	145.50	145.50
7	रिजर्व (रियेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया				1,273.04	1,319.70
8	प्रति शेयर आय (७० 10/- के प्रत्येक) (संचालन जारी एवं बंद	करने के लिए):				
	मूल:	0.31	0.48	(4.47)	(2.32)	2.04
	तरलः	0.31	0.48	(4.47)	(2.32)	2.04

तिथि: 26 मई 2022

प्रणोतः अपने क्षेत्र एक प्र्यासाधिक गतिविधि करती है इसलिए आईएनडी के तहत चन्ह रियोर्टिंग की आसरकता गति है। जन्मनी केवल एक प्र्यासाधिक गतिविधि करती है इसलिए आईएनडी के तहत चन्ह तमा उनके सम्बन्धित 28 मई, 2022 को सम्मन्न बैठक में अनुमंदित किये गये। रिसार्क किए कम्पनी के प्रवेशानिक देखापरीक्षक द्वारा अंकीडिंग रिपोर्ट प्रवान की गयें। पित्रार्क कोचिक कोचके बेजक बेजक बेजानिक कीचक कीचक किए जाने को आसरक थे। पुनैगतित/पुन वर्गीकृत किए गये हैं। कम्पनी पर इम्बिजन एकाडोटिंग स्टेन्डर्ड 1 ऑस्ट, 2019 से लागू है। मंदल की और स

मंडल की ओर स कृते बेजल इन्टरनेशनल लिमिटेड

NIMBUS

निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

US पंजीकृत कार्यालयः 1001—1006, 10वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली—110001 ■ फोन : 011-42878900, ईमेल : <u>nimbusindialtd@gmall.com</u>, बेबसाईट : www.nimbusprojectsltd.com CIN : L74899DL1993PLC055470

31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही व वर्ष स्टैंडअेंलोन एवं कन्सोलिडेटेड अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार 🏻 🤻										
		स्टॅंडॲलोन कन्सोलिडेटे						ğ		
विवरण	समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.03.2021 (अंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2022 (अंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2021 (अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.03.2022 (अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.03.2021 (अंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2022 (अंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2021 (अंकेक्षित)		
परिचालनों से कुल आय	60.96	25.49	386.21	461.58	60.96	25.50	386.21	461.59		
अवधि का शुद्ध लाम/ (हानि) (कर पूर्व तथा असाधारण मदों के उपरान्त)	(-)687.21	(-) 424.94	905.81	(-) 2153.34	(-) 93.71	(-) 430.92	1460.60	(-)2205.07		
अवधि का कर के बाद शुद्ध लाम/ (हानि) (असाधारण मदों के उपरान्त)	(-) 678.81	(-) 428.86	868.12	(-) 2168.12	(-) 85.32	(-) 434.84	1422.91	(-)2219.85		
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाम/ (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	(-) 678.43	(-) 428.29	868.76	(-) 2167.41	(-) 83.87	(-) 434.91	1424.70	(-) 2219.14		
समता अंश पूंजी	1083.80	743.80	1083.80	743.80	1083.80	743.80	1083.80	743.80		
कोष (पूर्नमूल्याकंन कोष हटाकर)	-	-	(–) 4862.26 (As on 31.03.2022)	(-) 5731.01 (As on 31.03.2021)	-	-	(-) 4862.20 (As on 31.03.2022)	(-) 6286.89 (As on 31.03.2021)		
आय प्रति अंश (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक) मूलमूत : डाइल्यूटिड :	(-) 6.62 (-) 6.62	(-) 5.77 (-) 5.77	8.46 8.46	(-)29.15 (-)29.15	(1.15) (1.15)	(-) 5.85 (-) 5.85	13.87 13.87	(-) 29.84 (-) 29.84		

टिपणी: उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता एवं प्रकटीकरण आवस्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सबेंज में दाक्षिल तिमाही व वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। तिमाही व वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सबेंज की वेबसाइट: www.bseindia.com तथा कंपनी के वेबसाइट: www.nimbusprojectsltd.com पर उपलब्ध है।

w.pseindia.com तथा कपना व बोर्ड की ओर से निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के लिए हस्तावर बिपिन अग्रवाल (प्रबच्च निदेशक) डीआईप्नः 00001276

नर्ड दिल्ली